



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 431 राँची, बुधवार

27 ज्येष्ठ, 1937 (श०)

17 जून, 2015 (ई०)

jkt; fuokpu vk; kx] >kj [k.M

आदेश

12 जून, 2015

संख्या: 03नि०-101/2011 रा०नि०आ० 1492 -- यतः राज्य निर्वाचन आयोग को समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2010 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 क, सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने / विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों ने समयक सूचना दिये जाने पर भी उक्त असफलता के लिया कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गए अभ्यावेदनों पर, (यदि कोई

हो,) विचार करने के पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः इस संबंध में उपायुक्त, पाकुड़ के प्रतिवेदन / अनुपूरक प्रतिवेदन एवं प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 कि धारा 10क सहपठित, झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों / स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित किया जाता है।

Øekol	ftyk	fuokpu {k-	uke ,oairk	dlj.k
1	2	3	4	5
1	i kdM+	XI i kdM@fyÍ hi kMk&01	xfg; k i gkM+ k] xte&Mk&j; k& i Ø&dkjekVMM+ i kØ&fyÍ hi kMk& i [k.M&fyÍ hi kMk& ftyk&i kdM+	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
2		XI i kdM@fyÍ hi kMk&02	fd'kkj d&kj l kgk] xte&irjki kMk& i Ø&Qyi gkMh] i kØ&chpkegy] i [k.M&fyÍ hi kMk& ftyk&i kdM+	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
3		XI i kdM@fyÍ hi kMk&02	d".kk eM& k] xke&uokMhg] i Ø&uokMhg] i kØ&fyÍ hi kMk& i [k.M&fyÍ hi kMk& ftyk&i kdM+	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
4		XI i kdM@fyÍ hi kMk&02	e&zk vfyvd kjh] xte&cM+ k[kj] i Ø&ky>kjh] i kØ&chpkegy] i [k.M&fyÍ hi kMk& ftyk&i kdM+	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
5		XI i kdM@fyÍ hi kMk&02	l hrkjke Hk&kjh] xte&chpkegy] i kØ&chpkegy] i [k.M&fyÍ hi kMk& ftyk&i kdM+	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
6		XI i kdM@fyÍ hi kMk&02	l nhi d&kj n& xte&fgj.ki g cktj] i Ø&tcjnkkg] i kØ&fgj.ki g cktj] i [k.M&fyÍ hi kMk& ftyk&i kdM	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
7		XI i kdM@vkeMki kMk&03	vfurk l kj&] xte&i kMj dkyk] i Ø&i kMj dkyk] i kØ&i kMj dkyk] i [k.M&vkeMki kMk& ftyk&i kdM+	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
8		XI i kdM@vkeMki kMk&03	yhykorh l kj&] xkØ&'kgj?kkVh] i Ø&i kMj dkyk] i kØ&i kMj dkyk] i [k.M&vkeMki kMk& ftyk&i kdM+	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
9		XI i kdM@fgj.ki g&04	ifeyk noh] xte&ekgui g] i Ø&ekgui g] i kØ&ekgui g]	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy

			i [k.M&fgj .ki g] ft yk&i kdM+	jgA
10		XI i kdM@i kdM&05	eerk t chch] xte&bykeh] i 0&bykeh] i 0&bykeh] i [k.M&i kdM] ft yk&i kdM+	fuokpu 0; ; ka dh y [kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
11		XI i kdM@i kdM&06	ijxu ege] xk0&d] kekMkxk i 0&l kskt kM] i 0&i kdM] i [k.M&i kdM] ft yk&i kdM+	fuokpu 0; ; ka dh y [kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
12		XI i kdM@i kdM&06	vk gkyhe] xte\$ i 0&ef.kjkei g] i 0&ef.kjkei g] i [k.M&i kdM] ft yk&i kdM+	fuokpu 0; ; ka dh y [kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
13		XI i kdM@i kdM+07	ul hek chch] xte&i Fohuxj] i 0&i Fohuxj] i 0&i Fohuxj] i [k.M&i kdM] ft yk&i kdM+	fuokpu 0; ; ka dh y [kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
14		XI i kdM@i kdM&07	f'kokuh l jdkj] xte&pki i g] i 0&pki i g] i 0&l hrskuxj] i [k.M&i kdM] ft yk&i kdM+	fuokpu 0; ; ka dh y [kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
15		XI i kdM@i kdM&08	ek0 [kyn gk su] xte&bl yei g] i 0&f>djgkVh i 0h] i 0&Hkokuhi g] i [k.M&i kdM] ft yk&i kdM+	fuokpu 0; ; ka dh y [kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
16		XI i kdM@egski g&09	, xud' ejk.Mh] xte&f'kojkei g] i 0&f'kojkei g] i 0&egski g] i [k.M&egski g] ft yk&i kdM+	fuokpu 0; ; ka dh y [kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
17		XI i kdM@egski g&09	l qkk g [ce] xte&ckmkgk] i 0&ckmkgk] i 0&jkykxte] i [k.M&egski g] ft yk&i kdM+	fuokpu 0; ; ka dh y [kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
18		XI i kdM@egski g&09	l q uk g [ce] xte&Hk/kVkyk] i 0&Hk/kVkyk] i 0&rki g] i [k.M&egski g] ft yk&i kdM+	fuokpu 0; ; ka dh y [kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
19		XI i kdM@egski g&10	ehuk VM] xte&nshuxj] i 0&nshuxj] i 0&nshuxj] i [k.M&egski g] ft yk&i kdM+	fuokpu 0; ; ka dh y [kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
20		XI i kdM@egski g&11	vkusV gkd nk] xte&ul hi g] i 0&t; uxkj] i 0& [kxMk] i [k.M&egski g] ft yk&i kdM+	fuokpu 0; ; ka dh y [kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
21		XI i kdM@egski g&11	NkVsyky l kj su] xte&xki kyMkxk] i 0&ekfud i g] i 0& [kxMk] i [k.M&egski g] ft yk&i kdM+	fuokpu 0; ; ka dh y [kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
22		XI i kdM@egski g&11	nshyky ep] xte&vHkpk] i 0&vHkpk] i 0& [kxMk] i [k.M&egski g] ft yk&i kdM+	fuokpu 0; ; ka dh y [kk nkf [ky djusea vl Qy jgA

			i [k.M&egski g] ftyk&ikdM+	jgA
23	XI ikdM@egski g&11	egshz l kjs] xte&[kk: Vksy k] i 0&vt p nkgk] i k0&[kkxkp v k] i [k.M&egski g] ftyk&ikdM+	fuokpu 0; ; ka dh y [kk nkf [ky djusea vl Qy jgA	
24	XI ikdM@egski g&11	l pkl Vsu fdLd] xte&uukMkxk] i 0&t; uxjk] i k0&jnhi g] i [k.M&egski g] ftyk&ikdM+	fuokpu 0; ; ka dh y [kk nkf [ky djusea vl Qy jgA	
25	XI ikdM@ikdM+ k&12	cfn' ksy gfcje] xte&jtckMh i 0&rrfy; k] i k0&pkdhl ky] i [k.M&ikdM+ k] ftyk&ikdM+	fuokpu 0; ; ka dh y [kk nkf [ky djusea vl Qy jgA	
26	XI ikdM@ikdM+ k&12	'kehzyk ejkMh] xte&tckd] i 0&ikdM+ k] i k0&ikdM+ k] i [k.M&ikdM+ k] ftyk&ikdM+	fuokpu 0; ; ka dh y [kk nkf [ky djusea vl Qy jgA	
27	XI ikdM@ikdM+ k&13	, ytkcFk eep] xte&ihryxfM+ k] i 0&[kkDI k] i k0&[kkDI k] i [k.M&ikdM+ k] ftyk&ikdM+	fuokpu 0; ; ka dh y [kk nkf [ky djusea vl Qy jgA	
28	XI ikdM@ikdM+ k&13	, ytkcFk ejk.Mh] xte&Qyksi kuh] i 0&cMkf l gi g] i k0&x.ki g] i [k.M&ikdM+ k] ftyk&ikdM+	fuokpu 0; ; ka dh y [kk nkf [ky djusea vl Qy jgA	
29	XI ikdM@ikdM+ k&13	yhykorh eep] xte&chpi gkMh] i 0&chpi gkMh] i k0&pkd' kky] i [k.M&ikdM+ k] ftyk&ikdM+	fuokpu 0; ; ka dh y [kk nkf [ky djusea vl Qy jgA	
30	XI ikdM@ikdM+ k&13	LohVh gka nk] xte&[kkDI k] i 0&[kkDI k] i k0&[kkDI k] i [k.M&ikdM+ k] ftyk&ikdM+	fuokpu 0; ; ka dh y [kk nkf [ky djusea vl Qy jgA	

jKT; fuokpu vk; Dr ds vkns k l }

(g0@&) अस्पष्ट

l fpo

jKT; fuokpu vk; kx]

>kj [k.M] jkpbh A

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 431--50 ।